

2018

Time : 3 hours

Full Marks : 80

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें ।

The figures in the margin indicate full marks.

उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं ।

Answer from both the Groups as directed.

निर्देशानुसार दोनों खण्डों से उत्तर दें ।

Group – A

खण्ड – अ

(Objective Type Questions)

(वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

1. Select the correct option for the following objective questions : 2×10 = 20

AO – 4/3

(Turn over)

निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें :

(a) DDC was designed by :

- (i) J. D. Brown
- (ii) ~~Melvil Dewey~~
- (iii) Paul Otlet
- (iv) None of them

(b) Classification Research Group (London) was founded :

- (i) 1950
- (ii) ~~1952~~
- (iii) 1961
- (iv) None of these

(c) Which of the following classification schemes is fully enumerative ?

- (i) Library of Congress Classification
- (ii) ~~Expansive Classification~~
- (iii) ~~Universal Decimal Classification~~
- (iv) None of these

AO-4/3

(2)

Contd.

(d) First edition of DDC was brought out in :

~~(i) 1876~~

(ii) 1879

(iii) 1902

(iv) None of these

(e) Colon Classification was designed by :

(i) Fermont Rider

(ii) H. E. Blis

~~(iii) S. R. Ranganathan~~

(iv) None of them

(f) Colon classification was first published in the year :

~~(i) 1933~~

(ii) 1939

(iii) 1941

(iv) None of these

(g) Which notation is used in C. C. ?

(i) Faceted

- (ii) Almost Faceted
- ~~(iii) Enumerative~~
- (iv) None of these
- (h) Which phase relation is not provided in C. C. 6th Edition ?
- ~~(i) Tool~~
- (ii) Bias
- (iii) Difference
- (iv) None of these
- (i) S. R. Ranganathan enunciated how many steps in classifying a document :
- (i) 4
- ~~(ii) 5~~
- (iii) 7
- (iv) 9
- (j) Table 7 of DDC is for :
- ~~(i) Language~~

- (ii) Area
- (iii) Persons
- (iv) None of these

Group – B

खण्ड – ब

(Long-answer Type Questions)

(दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न)

Answer any four questions of the following :

15×4 = 60

निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दें :

2. Why library classification is called as foundation of Library Science ? Explain in context of five laws.

पुस्तकालय वर्गीकरण को पुस्तकालय की नींव क्यों कहा जाता है ? पाँच सूत्रों के संदर्भ में प्रकाश डालें ।

3. Differentiate between Knowledge Classification and Library Classification.

ज्ञान वर्गीकरण एवं पुस्तकालय वर्गीकरण में अन्तर स्पष्ट करें ।

AO – 4/3

(5)

(Turn over)

4. What is notation ? Explain it need and functions

178/180 of notation.

अंकन क्या है ? इसकी आवश्यकताओं एवं कार्यों का वर्णन करें ।

5. What is phase relation ? Explain differerent types of phase relation with suitable examples.

दशा सम्बन्ध क्या है ? विभिन्न प्रकार के दशा सम्बन्धों की उदाहरण सहित व्याख्या करें ।

6. What do you understand by devices ? Discuss its types.

विधियों से आप क्या समझते हैं ? इसके प्रकारों की चर्चा करें ।

7. Explain the provision of common Isolates in C. C. with examples.

द्विबिन्दु वर्गीकरण पद्धति में सामान्य एकलों के निरूपणों की उचित उदाहरणों के साथ व्याख्या करें ।

157 8. Explain the salient features of dewey decimal classification.

ड्यूव दशमलन वर्गीकरण की प्रमुख विशेषता एवं मूल्यांकन पर प्रकाश डालें ।

AO - 4/3

(6)

Contd.

167

9. What are fundamental categories ? Discuss briefly.

मूलभूत श्रेणियाँ क्या हैं ? संक्षिप्त चर्चा करें ।

10. Explain the descriptive theory of Library Classification.

पुस्तकालय वर्गीकरण के विवरणात्मक सिद्धान्तों की व्याख्या करें ।

